# **Syllabus of Theory Paper**

			Introductio Year: I	II Seccion	ı: 2025-26
Progi	am: Certificate Cl	ass: UG.	I car: I		
		Subjec	ct: Vocationa		
1	Course Code				
2	Course Title	Fundar	mentals of Agr	i- Marketing	
3	Course Type		Skill	Enhancement C	ourse
	(Interdisciplinary)			4-1 houthoutudo	nts of any stream
4	Pre-requisite (if any)	This co	ourse can be op	ted by the stude	nts of any stream
5	Course Learning outcomes		oing through th Understand	is course learners	ods of Agricultura
	(CLO)		marketing,	Tauttonat mou	
		Ì _	Learn about H	olistic Approach	of marketing in Indian
	ļ		Philosophy	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
		j	Classify Indian	Markets	
		_	Understand Ma	arketing Function	s and functionaries
			***	4. # 74. <u> </u>	
	Expected Job Role / career	□ who	le seller, retaile	er, broker, commi	ssion agent, processors
1	opportunities	work w	vith financing in	stitutions	
6	Credit Value		<u> </u>	2	26.125
7	Total Marks		Marks: 100		ing Marks: 35
	Pa	ırt B- Co	ntent of the	Course	
Tota	l No. of Lectures (in hours p	er week): 3	30		NI CI
Unit	Topics	그 지수 기원			No. of Lectures
Ī	Prospects of Agricul	tural Marl	keting in India		10
	<ul> <li>Definition of n</li> </ul>	narket		. •	
	Traditional me	thods of A	gricultural marl	ceting	
	Components	of market,	, scope and	subject-matter of	<u>.</u>
	agriculture ma	rketing,	1 41	utionad in Ancien	•
	Ethics in Agri	cultural ma	irketing as mer	tioned in Ancien	4
	Indian Texts	1 4	d Authahaetra		
	• Agricultural m	arkeung ar	iu Aiuisiiasua		
	• Concepts of A	nimsa, sau	.va, seva norkating in I	ndian Philosophy	,
	• Holistic Appr (Concepts of )	Coop and St	naikenng m i ankhva)	ildidii 7 miesep=.	
	Activity: Visit to loc	. Uga anu 50 al market a	ankirya) and collect info	rmation about the	e ·
1	market situation and	price of v	arious agricult	ural products and	i
	preparing a report				
II	Agriculture Marketing	and Econ	omic Developn	nent	10
**	Importance ar	d need of	agricultural ma	rketing,	
	<ul> <li>Classification</li> </ul>	of Markets	S		
	Characteristic	s of marke	ts and ideal sys	tem of agricultura	1
	marketing				
	Marketed and	marketabl	e surplus, Meth	ods of calculation	S
	and measures	to increase	e marketable su	rplus in India	
	A ctivity:				
	-Visit to a local agr	icultural m	arket/Mandi aı	nd list the variou	S
-	agricultural products	and to stud	y their further p	brocessing.	

	- To visit a local rural market and prepare a report on the import, export and prices of agricultural products	
	export and protests	10
II	<ul> <li>Marketing Functions and functionaries</li> <li>Meaning and classification</li> <li>Exchange functions buying and selling</li> <li>Physical function-warehousing, transportation, processing;</li> <li>Facilitating function-standardization and grading packaging, quality control and labelling (AGMARK)</li> <li>Financing and risk management</li> <li>Market functionaries: producer to consumer, whole seller retailer, broker, commission agent, speculators processors financing institutions need and importance of intermediaries</li> <li>Activity: <ul> <li>To visit a food processing unit and prepare a detailed report</li> <li>To visit the warehouse and prepare a report on its working structure and working system.</li> </ul> </li> </ul>	
	structure and working system.	
Kevwor	ds/Tags: Agricultural Marketing, AGMARK, Standardization, Gra	ding
	Part C-Learning Resources	
	Text Books, Reference Books, Other resources	
2.	Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in Indi New Delhi, 2006. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing House Private Ltd., New Delhi. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora a	, Vikas Publishing
<b>4. 5.</b>	Limited, Bombay. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittalianted, Bombay. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, M.Company Inc., New York. M.P. Hindi Granth Academy Books Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal P.	tal Publishers Pvt. Iacmillan Publishing ublications, New Delhi
Suggest	ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOC	OC
Buggest	Part D-Assessment and Evaluation	
Maximu	m Marks: 100	
Univers	Assessment: ity Exam Section: 100 2,00 Hours	
	marks/ suggestions:	

wor

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र

PRINCIPAL

Govi. Madhay Vigyan Mahavidhyalava

UJJAIN (M.P.)

*		भाग अः कक्षा: स्नातक	वर्ष: प्रथम	सत्र: 20	025-26
ाये <b>क्र</b>	म: प्रमाण पत्र	<u> </u>			
		विषय: व्या	वसाायक —————		
1	पाठ्यक्रम का कोड				
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कृषि विपणन के	आधारभूत ।स	18211	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार		कौशल संव	र्धन पाठ्य	ъ <b>н</b>
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	किसी भी संकाय	ा के छात्र इस प	ाठ्यक्रम क	। चयन कर सकते हैं
	(यदि कोई हो)				
5	पाठ्यक्रम अध्धयन की			के बाद विद	द्यार्थी निम्नलिखित का
	परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग	करने में सक्ष	म हाग: गन के पारंपरि	कत्रीकों ब	ते समझना
	आउटकम) (CLO)	_ ~			ग्र दृष्टिकोण के बारे
		- भारताय   जानना क	4 °	44 46 XIV	x - 31.0 111 1 1 1 1 1 1 1
			गजारों को वर्ग	कृत करना	
			जर्यों और सहय <u>े</u>		
	अपेक्षित रोजगार / कैरियर	<del> </del>			लाल, कमीशन एजेंट
	के अवसर		, वित्तपोषण सं	स्थानों के स	ाथ काम करते हैं।
	<b>A</b> 1				
6	क्रेडिट मान			2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक	: 100	न्यूनतम उ	उत्तीर्ण अंक: 35
	9	गाग <b>ब-</b> पाठ्यक्र	म की विषयवस	ৱ	
व्याख	यान की कुल संख्या-ट्यूटोरिय	ल- प्रायोगिक (	प्रति सप्ताह घंटे	में): L-T-	P:
 इका					व्याख्यान की संख्या
 ]					10
	_	वेपणन की संभा	<b>व</b> नाएं		
	• बाजार की पर्	रेभाषा			
	• कृषि विपणन	के पारंपरिक तर्र	ोके,		



	• बाजार के घटक, कृषि विपणन का दायरा और विषय-	
	वस्तु,	
	• प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित कृषि विपणन में	
	नैतिकता	
	• कृषि विपणन और अर्थशास्त्र	
	• अहिंसा, सत्व, एवं सेवा की अवधारणाएँ	
	• भारतीय दर्शन में विपणन का समग्र दृष्टिकोण (योग और	
	सांख्य की अवधारणाएँ)	
•	गतिविधि: स्थानीय बाजार का दौरा करना और विभिन्न	
	कृषि उत्पादों की बाजार स्थिति और मूल्य के बारे में	
II	जानकारी एकत्र करना और एक रिपोर्ट तैयार करना कृषि विपणन और आर्थिक विकास	10
	• कृषि विपणन का महत्व और आवश्यकता	
	• बाजारों का वर्गीकरण	
	• बाजारों की विशेषताएँ और कृषि विपणन की आदर्श	
	प्रणाली	
	• विपणन और विपणन योग्य अधिशेष, गणना के तरीके	
	और भारत में विपणन योग्य अधिशेष बढ़ाने के उपाय	
!	गतिविधि:	
	-स्थानीय कृषि बाजार/ मंडी का दौरा करना और विभिन्न	
	कृषि उत्पादों की सूची बनाना और उनके आगे के प्रसंस्करण	
	का अध्ययन करना।	
÷	- स्थानीय ग्रामीण बाजार का दौरा करना और कृषि	
	उत्पादों के आयात, निर्यात और कीमतों पर एक रिपोर्ट	
	्तैयार करना ।	
III	विपणन कार्य और सहयोगी	10
Ш	• अर्थ और वर्गीकरण	
	• विनिमय कार्य- क्रय और विक्रय	
	• भौतिक कार्य- भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण;	
	· ·	
	• सुविधा कार्य- मानकीकरण और ग्रेडिंग, पैकेजिंग,	
	गुणवत्ता नियंत्रण और लेबलिंग (एगमार्क),	



- वित्तपोषण और जोखिम प्रबंधन।
- बाजार सहयोगी: उत्पादक से उपभोक्ता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, दलाल, कमीशन एजेंट, प्रोसेसर, वित्त पोषण संस्थान मध्यस्थों की आवश्यकता और महत्व गतिविधि:
- खाद्य प्रसंस्करण इकाई का दौरा करना और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
- गोदाम का दौरा करना और इसकी कार्य संरचना और कार्य प्रणाली पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

सार **बिंदु (की वर्ड)/टैग:** कृषि विपणन, एगमार्क, मानकीकरण, ग्रेडिंग

### भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

- 1. Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.
- 2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.
- 3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.
- 4. Jagadish Prasad, Encyclopedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.
- 5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.
- 6. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें
- 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.
- 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New

Delhi.

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: SWAYAM, NPTEL, MOOC पाठ्यक्रम

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:



GOVE Madhard Vignan Mahawadhualaun

अधिकतम अंक: 100	
आकलन :	कुल अंक 100
<b>विश्वविद्यालयीन परीक्षाः</b> समय- 02.00 घंटे	
कोई टिप्पणी/सुझावः	

# **Syllabus of Practical Paper**

	1 34 -		Part	A Introduction		· <u>·</u>
Progr	am: Certifica	te	Class': UG	Year: 1st Ye	ear Sess	sion:2025-26
			6.11	4. ¥74:		
			Subject	t: Vocational Course	2	
1	Course Cod		E.	ndamentals of Agri-	Marketing (P	ractical)
2	Course Title			ill Enhancement Co		
3	Course Typ Pre-requisit		Th:	is course can be opted	by the student	s of any stream
5	Course Lea			On completion of this	course, the stu	dents will be able to:
	(CLO)	ining out		- Know about vari	ous marketing	functions
				- Understand class	sification of ma	rket
				- Calculate marke		
				- Understand func	tioning of ware	house
6	Credit Valu				01	
7	Total Mark		Ma	ax. Marks: 100	Min. Pa	ssing Marks: 35
			Part B- C	Content of the Co	urse	
Total	No. of Lectur	res-Tutori	als-Practical (	(in hours per week):	30	
L-T-	P:	Topics				No. of Lectures
Unit_ I			ow of agricults	ural marketing conce		
۳				marketing functions		al
	***		eting.	marketing randtons		
				ication of Indian Mar	kets.	
				functions- warehousing		n,
	٠.		processing.		. x	
				nge functions- buying	and selling.	
				eted and marketable s		
}		7. Stud	v of Facilit	ating functions-stan	dardization a	nd
		grad	ing, packagii	ng, quality control	l and labelling	ng
			MARK).			
		8. To p	erform analysi	is on Financing and r	isk managemen	t.
		9. Visi	to a local	market to study va	arious marketii	ng
		func	tions performe	ed by different agenci	es.	

WH

Text Books, Reference Books, Other resources  1. Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks  Practical External Evaluation	Text Books, Reference Books, Other resources  1. Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Keywor	market. ds/Tags: Agri-marketing, Standardization, Grading, Agmark	
<ol> <li>Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.</li> <li>Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.</li> <li>Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.</li> <li>Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.</li> <li>Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.</li> <li>M.P. Hindi Granth Academy Books</li> <li>Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.</li> <li>Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.</li> </ol> Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC Part D-Assessment and Evaluation Suggested Evaluation Methods: External evaluation Marks	<ol> <li>Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.</li> <li>Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.</li> <li>Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.</li> <li>Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.</li> <li>Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.</li> <li>M.P. Hindi Granth Academy Books</li> <li>Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.</li> <li>Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.</li> </ol> Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC Part D-Assessment and Evaluation Suggested Evaluation Methods: External evaluation Marks		Part C-Learning Resources	
New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		Text Books, Reference Books, Other resources	· · ·
New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	New Delhi, 2006.  2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	1.	Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, C	oxford and IBH,
House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	House Private Ltd., New Delhi.  3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		New Delhi, 2006.	
3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	3. Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	2.	Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, V	ikas Publishing
Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Limited, Bombay.  4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links  Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		House Private Ltd., New Delhi.	Co Dublishous Dut
4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	4. Jagadish Prasad, Encyclopaedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	3.		Co. Publishers Pvt.
Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Limited, Bombay.  5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		Limited, Bombay.	Dublichare Put
5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York. 6. M.P. Hindi Granth Academy Books 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi. 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York. 6. M.P. Hindi Granth Academy Books 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi. 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks			THIBITATIETS FVL.
Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Company Inc., New York.  6. M.P. Hindi Granth Academy Books  7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	4.		
6. M.P. Hindi Granth Academy Books 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi. 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	6. M.P. Hindi Granth Academy Books 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi. 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		Limited, Rombay,	
7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.  8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks		Limited, Bombay. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Mac	
8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.  Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5.	Limited, Bombay. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Mac Company Inc., New York.	
Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggestive digital platforms web links Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books	millan Publishing
Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6. 7	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shiyarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ	millan Publishing ications, New Delhi.
Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6. 7	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shiyarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ	millan Publishing ications, New Delhi.
Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6. 7	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shiyarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ	millan Publishing ications, New Delhi.
Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggested equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6. 7	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shiyarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ	millan Publishing ications, New Delhi.
Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation Marks	Part D-Assessment and Evaluation  Suggested Evaluation Methods:  External evaluation Marks	5. 6. 7. 8.	Limited, Bombay. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York. M.P. Hindi Granth Academy Books Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications	millan Publishing ications, New Delhi.
Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	Suggested Evaluation Methods:  External evaluation  Marks	5. 6. 7. 8.	Limited, Bombay. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Mack Company Inc., New York. M.P. Hindi Granth Academy Books Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications	millan Publishing ications, New Delhi.
External evaluation Marks	External evaluation Marks	5. 6. 7. 8.	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC	millan Publishing ications, New Delhi.
Date in a control	Date in a control	5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macron Company Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publi Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links  ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation	millan Publishing ications, New Delhi.
Practical External Evaluation 100	Practical External Evaluation 100	5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation ed Evaluation Methods:	millan Publishing ications, New Delhi. , New Delhi.
Practical External Evaluation 100	Practical External Evaluation 100	5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation ed Evaluation Methods:	millan Publishing ications, New Delhi. , New Delhi.
		5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation ed Evaluation Methods:	millan Publishing ications, New Delhi. , New Delhi.
$1 - \cdots - 1$		5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation ed Evaluation Methods:  External evaluation	millan Publishing ications, New Delhi. , New Delhi.  Marks
		5. 6. 7. 8. Suggest	Limited, Bombay.  Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Maccompany Inc., New York.  M.P. Hindi Granth Academy Books  Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publ Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications  ive digital platforms web links ed equivalent online courses: SWAYAM, NPTEL courses and MOOC  Part D-Assessment and Evaluation ed Evaluation Methods:  External evaluation	millan Publishing ications, New Delhi. , New Delhi.  Marks

Any remarks/ suggestions:

PRINCIPAL

Govt. Madhaw Vigyan Mahavidhyalava

UJJAIN (M.P.)

#### प्रायोगिक प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम

			भाग अ -	परिचय		200 S. W.	
—— कार्यक्रम	ा: प्रमाणपत्र	कक्षा: स्नात	क	वर्ष: प्रथम	वर्ष	सत्र: 2	2025-26
		विषय:	व्यावसारि	येक पाठ्यव्र	<b>त्म</b>		
1	पाठ्यक्रम का कोड						
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक		कृषि विप	णन के आध	श्रारभूत रि	नेद्धांत (प्र	ायोगिक)
						is s	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :			 कौश	ाल संवर्ध	न पाठ्यक्र	<b>म</b>
4	पूर्वापेक्षा (Prerequis	site)	किसी भी	संकाय के ह	ब्रात्र इस <sup>ए</sup>	गठ्यक्रम	का चयन कर
	(यदि कोई हो)		सकते हैं				
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की		इस कोर्स	को पूरा क	रने पर, इ	<u>ब्रात्र</u> निम्न	लिखित कार्य करने
	परिलब्धियां (कोर्स ल	र्निंग	में सक्षम	होंगे:			
	आउटकम) (CLO)		 - विभिन्न	ा विपणन व	<b>हार्यों</b> के ब	ारे में जा	नना
		:	ļ .	के वर्गीकर			
			  - बाजार	अधिशेष व	ति गणना	करना	
			- वेयर ह	ग़उस की क	ार्यप्रणाली	को समः	झना
6	क्रेडिट मान				01	1	
7	कुल अंक 100		अधिकतम	ा अंक: 10C	)	न्यूनतम र	उत्तीर्ण अंक: 35
				म की विषय		June 1	
	न की कुल संख्या-ट्यूटे	ोरियल- प्रा	योगिक (प्र	ाति सप्ताह	घंटे में): ।	L-T-P:	30
इकाई	विषय						व्याख्यान की
							संख्या

Govt. Madhay Vigyan Mahavidhyalava
UJJAIN (M.P.)

- 1. कृषि विपणन अवधारणा की समीक्षा।
- 2. कृषि विपणन के लिए विभिन्न विपणन कार्यों का अध्ययन।
- 3. भारतीय वाजारों का वर्गीकरण करना।
- 4. भौतिक कार्यों का अध्ययन- भंडारण, परिवहन, एवं प्रसंस्करण।
- 5. विनिमय कार्य करना- क्रय और विक्रय।
- 6. भारत में विपणन और विपणन योग्य अधिशेष की गणना करना।
- सुविधा कार्य का अध्ययन- मानकीकरण और ग्रेडिंग,
   पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और लेबलिंग (एगमार्क)।
- 8. वित्तपोषण और जोखिम प्रबंधन पर विश्लेषण करना।
- 9. विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न विपणन कार्यों का अध्ययन करने के लिए स्थानीय बाजार का दौरा करना।
- 10. कुछ वस्तुओं के लिए विपणन चैनल की पहचान करना।
- 11. विपणन लागतों के बारे में विपणन डेटा एकत्र करना।
- 12. कृषि उपज भंडारण की विभिन्न विधियों का प्रदर्शन कीजिये।
- 13. विभिन्न प्रकार के बाजार (ग्रामीण, मंडी, एवं सहकारी समिति के कार्य एवं विशेषताओं का अध्ययन)।
- 14. ग्रेडिंग इकाई का अध्ययन/ग्रेडिंग इकाई का दौरा करना।
- 15.अपने स्थानीय में बाजारोन्मुखी कृषि की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।

सार **बिंदु (की वर्ड)/टैग:** कृषि विपणन, मानकीकरण, ग्रेडिंग, एगमार्क

### भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

Text Books, Reference Books, Other resources

1. Acharya, S.S. and N.L. Agrawal, Agricultural Marketing in India, Oxford and IBH, New Delhi, 2006.

Work.

- 2. Amarchand, D. and B. Varadharajan, Introduction to marketing, Vikas Publishing House Private Ltd., New Delhi.
- Gupta, A.P., Marketing of Agricultural Produce in India, Vora and Co. Publishers Pvt. Limited, Bombay.
- 4. Jagadish Prasad, Encyclopedia of Agricultural Marketing, Mittal Publishers Pvt. Limited, Bombay.
- 5. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Company Inc., New York.
- 6. मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें
- 7. Prasad A. Shivarama, Agricultural Marketing in India, Mittal Publications, New Delhi.
- 8. Singhal, A.K., Agricultural Marketing in India, Anmol Publications, New Delhi.

## 2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम: SWAYAM, NPTEL, MOOC पाठ्यक्रम

बाह्य मूल्यांकन	अंक
प्रायोगिक बाह्य मूल्यांकन	100

Govi. Madaya Vigyan Mahavidhyalava UJJAIN (M.P.)